

प्रेस नोट

***थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा कर शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 02 मोटर साइकिल व अवैध चाकू बरामद* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा शातिर वाहन चोर मय चोरी की हुई 02 मो0सा0 व एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 27.07.2022 को थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा सूचना पर अम्बरपुर चौराहे के पास चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे शातिर वाहन चोर अभियुक्त शहजाद पुत्र नौशाद निवासी ग्राम सिरसाखुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके 02 अन्य साथी मो0सा0 छोडकर फरार हो गये । गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद के कब्जे से चोरी की हुई 02 मो0सा0 सुपर स्पलैन्डर रंग ग्रे रजि0न0 UP23U8424 व बजाज प्लेटिना रंग काला रजि0न0 UP23R5958 तथा एक अवैध चाकू बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये । फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

पूछताछ पर अभियुक्त शहजाद द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 25.07.2022 को बरामद मो0सा0 प्लेटिना को छजलैट पुलिया के पास से चोरी करने व मो0सा0 सुपर स्पलैन्डर को मानकजुडी गांव से थोडा पहले खेत के सामने सडक से चोरी करना स्वीकार किया गया है । उक्त बरामद प्लेटिना मो0सा0 रजि0न0 UP23R5958 की चोरी करने के सम्बन्ध में थाना छजलैट मुरादाबाद पर मु0अ0सं0 163/22 धारा 379 भादवि व बरामद सुपर स्पलैन्डर मो0सा0 UP23U8424 की चोरी करने के सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पर मु0अ0सं0 239/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है । थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शहजाद पुत्र नौशाद निवासी ग्राम सिरसाखुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

बरामदगी का विवरण- चोरी की हुई 02 मो0सा0 व एक अवैध चाकू

1. सुपर स्पलैन्डर मो0सा0 रंग ग्रे रजि0न0 UP23U8424

चेसिस नं0- MBLJA025EWG9L48751, इंजन नं0- JA05ECG9L35964

2. बजाज प्लेटिना रंग काला रजि0न0 UP23R5958

चेसिस नं0- MD2A18AZOEPA19690, इंजन नं0- DZZPEA69744

2. 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार सिंह थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

2. उ0नि0 सलीम अहमद थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

3. का0 1389 दिनेश कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

4. का0 279 अंजेश कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

5. का0 1139 कन्हैया कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA